



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 502]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 12, 2011/भाद्र 21, 1933

No. 502]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 12, 2011/BHADRA 21, 1933

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2011

सं. 45/2011-सेवाकर

सा.का.नि. 672(अ).— केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, उक्त अधिनियम की धारा 65 के खंड (105) के उप-खंड (ययययड) में निर्दिष्ट मद (iii) के अंतर्गत सेवा कर से छूट देती है।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 354/167/2011-टीआरयू]

समर नंदा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2011

No. 45/2011-Service Tax

G.S.R. 672(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts taxable services referred to under item (iii) of sub-clause (zzzzm) of clause (105) of Section 65 of Finance Act, 1994.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 354/167/2011-TRU]

SAMAR NANDA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2011

सं. 39/2011-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 673(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 10/1996-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. 308 (अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,

(i) सारणी में क्रम सं० 18 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
“ 19.	1905 31 00 या 1905 90 20	पैक बिस्कुट प्रति किलो का खुदरा बिक्री मूल्य के बराबर पर 100 रुपये से अधिक नहीं स्पष्टीकरण: “खुदरा बिक्री मूल्य” का अर्थ अधिसूचना सं० 3/2006-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2006, सा०का०नि० 93 (अ), तारीख 1 मार्च, 2006 में क्रम सं० 18क में स्तंभ (3) के सामने परिभाषित है।

(ii) सारणी के पश्चात् निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जायेगा, अर्थात्,-

“ 2. इस अधिसूचना का प्रभाव क्रम सं० 19 में दर्शाये गए माल में प्रयुक्त शूगर सिरप या क्रीम के अलावा किसी भी निवेश या मध्यवर्ती माल के लिए लागू नहीं होगा.”

[फा. सं. 354/100/2011-टीआरयू]

राज कुमार दिग्विजय, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं० 10/1996-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा०का०नि० 308 (अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं० 48/2006-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, 30 दिसम्बर, 2006, सा०का०नि० 804 (अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी, के द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi the, 12th September, 2011

No. 39/2011-Central Excise

G.S.R. 673(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.10/1996-Central Excise, dated the 23rd July, 1996, published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 308 (E) dated the 23rd July, 1996, namely:-

In the said notification, -

(i) in the TABLE, after S. No.18 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
"19.	1905 31 00 or 1905 90 20	Biscuits cleared in packaged form with per kg retail sale price equivalent not exceeding Rs. 100. Explanation.- "retail sale price" shall have the same meaning as defined in column (3) against S. No. 18A of notification no.3/2006-Central Excise dated 1 st March, 2006 published vide G.S.R. 93 (E), dated the 1 st March, 2006

(ii) After the table the following shall be added, namely,-

"2. Nothing contained in this notification shall apply to any inputs or intermediate goods other than sugar syrup or cream used in the manufacture of goods mentioned at S. No. 19."

[F. No. 354/100/2011-TRU]

RAJ KUMAR DIGVIJAY, Under Secy.

Note : The principal notification No.10/1996-Central Excise dated the 23rd July, 1996 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 308 (E), dated the 23rd July, 1996 was last amended vide notification No. 48/2006 - Central Excise, dated the 30th December, 2006, published vide number G.S.R.804 (E), dated the 30th December, 2006.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2011

सं. 89/2011-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 674(अ).—केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 39/96-सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), में सा0का0नि0 291 (अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 में, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,

(i) क्रम सं0 2 के सामने, स्तंभ (2) में, शब्द "भारतीय नौसेना" के स्थान पर शब्द - "भारतीय नौसेना या केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल" प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

(ii) क्रम सं0 8 के सामने,-

(क) स्तंभ (2) में, शब्द "रक्षा मंत्रालय" के स्थान पर शब्द "रक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय" प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

(ख) स्तंभ (3) में शब्द "भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अवर सचिव" और "उक्त अवर सचिव" के स्थान पर शब्द "भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अवर सचिव या भारत सरकार के गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव, यथास्थिति" और "उक्त अवर सचिव या उक्त संयुक्त सचिव, यथास्थिति" प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

(iii) क्रम सं0 10 के सामने, स्तंभ (3) में,-

(क) खंड (ख) के उपखंड (1) में, शब्द “ रक्षा मंत्रालय ” के स्थान पर शब्द “ रक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय, यथास्थिति ” प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

(iv) क्रम सं० 11 के सामने, स्तंभ (3) में,-

(क) स्तंभ (क) में, शब्द “ तस्करी विरोधी अभियानों के उपयोग के लिए ” के स्थान पर शब्द “ तस्करी विरोधी अभियानों उपयोग के लिए या तटीय सुरक्षा अभियान या आंतरिक सुरक्षा अभियान ” प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

(ख) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्,-

“ (ख) आयातकर्ता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें,-

(i) भारत सरकार, राजस्व विभाग के अवर सचिव द्वारा कि उक्त माल तस्करी विरोधी अभियानों के उपयोग के लिए है या

(ii) जो ऐसे अधिकारी से जो भारत सरकार, गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव से नीचे की पंक्ति के न हो द्वारा कि उक्त माल तटीय सुरक्षा अभियान या आंतरिक सुरक्षा अभियान के उपयोग के लिए है.”

(v) क्रम सं० 12 के सामने, स्तंभ (3) में, शब्द “ केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल ” के स्थान पर शब्द “ केन्द्रीय अर्द्धसेनिक बल ” प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

[फा. सं. 354/76/2011-टीआरयू]

राज कुमार दिग्विजय, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं० 39/96-सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), में सा०का०नि० 291 (अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं० 64/2011-सीमाशुल्क, 19 जुलाई, 2011 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), में सा०का०नि० 550 (अ), तारीख 19 जुलाई, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी, के द्वारा किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi the, 12th September, 2011

No. 89/2011-Customs

G.S.R. 674(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments, in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.39/96-Customs, dated the 23rd July, 1996, published in Gazette of India, Extraordinary part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. 291(E), dated the 23rd July, 1996, namely:-

In the said notification, in the TABLE,

(i) against S.No.2, in column (2), for the words “ Indian Navy ” the words, “Indian Navy or Central Para Military Forces” shall be substituted;

(ii) against S.No.8,-

(a) in column (2), for the words “Ministry of Defence”, the words “Ministry of Defence or Ministry of Home Affairs” shall be substituted

(b) In column (3), for the words "Under Secretary to the Government of India in the Ministry of Defence" and "said Under Secretary", the words "Under Secretary to the Government of India in the Ministry of Defence or Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Home Affairs, as the case may be" and "said Under Secretary or said Joint Secretary, as the case may be" shall respectively be substituted;

(iii) against S.No.10, in column (3), -

(a) in clause (b), in sub-clause (1), for the words "Ministry of Defence", the words "Ministry of Defence or Ministry of Home affairs, as the case may be" shall be substituted;

(b) in clause (2), sub-clause (iii), for the words "Ministry of Defence", the words "Ministry of Defence or Ministry of Home affairs, as the case may be" shall be substituted;

(iv) against S.No.11, in column (3),-

(a) in clause (a), for the words "for use in anti-smuggling operations", the words, "for use in anti smuggling operations or coastal security operations or internal security operations" shall be substituted;

(b) for clause (b), the following shall be substituted, namely,-

"(b) the importer produces a certificate,-

(i) from the Under Secretary to the Government of India in the Department of Revenue that the said goods are intended for use in anti-smuggling operations or

(ii) from an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India, in the Ministry of Home Affairs that the said goods are intended for use in coastal security operations or internal security operations."

(v) against S.No.12, in column (3), for the words "Central Reserve Police Force", the words "Central Para Military Forces" shall be substituted;

[F. No. 354/76/2011-TRU]

RAJ KUMAR DIGVIJAY, Under Secy.

Note : The principal notification No.39/96-Customs dated the 23rd July, 1996 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 291 (E), dated the 23rd July, 1996 and last amended vide notification No. 64/2011-Customs dated the 19th July, 2011, published in Gazette of India, Extraordinary part II, Section 3, Sub-section (i) vide vide number G.S.R.550 (E), dated the 19th July, 2011.

3477 GE/11-2